



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1932 (श0)
(सं0 पटना 796) पटना, बुधवार 22 दिसम्बर 2010

सं० 1751
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

शुद्धि-पत्र
22 दिसम्बर 2010

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 1717, दिनांक 15 दिसम्बर 2010 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है।

विषय में अंकित वाक्यों को विलोपित करते हुए निम्न प्रकार अन्तःस्थापित किया जाता है।

“सुशासन के कार्यक्रम (2010–2015) के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम नीति को लागू करने एवं इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में।”

2. संकल्प के अंतिम पारा के वाक्यों को विलोपित करते हुए इसे निम्न प्रकार अन्तःस्थापित किया जाता है—

“राज्य सरकार के सभी विभाग इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अविलम्ब कारवाई सुनिश्चित करेंगे तथा राज्य स्तर से लेकर प्रशासन के निम्न स्तर तक सभी कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सुशासन के कार्यक्रम (2010–15) संलग्न है।”

3. आदेश में “न्यूनतम साझा” शब्दों को विलोपित करते हुए “सुशासन के” शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाता है।

शेष सभी यथावत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार वर्मा,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 796-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>